LEADING LEASING FINANCE AND INVESTMENT CO. LIMITED

611, Sixth Floor, Pragati Tower 26 Rajendra Place Opp. Metro Station, Delhi- 110008 CIN: L65910DL1983PLC016712

(E) leadingleashing@gmail.com(o) 011 - 65632288

(W):www.llflltd.in

Date: 20.08.2022

To,

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001 Metropolitan Stock Exchange Limited 205(A), 2nd Floor, Piramal Agastya Corporate Park Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West), Mumbai-400070

Subject: Disclosure of issuance of Notice of AGM as per sub-regulation 4 of regulation 30 read with regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)
Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

With reference to captioned subject, please find the enclosed herewith Notice of Annual General Meeting of the company to be held on Friday, 09th September, 2022 along with the clippings of English Newspaper "Financial Express" and Hindi Newpaper "Jansatta" dated 20/08/2022 in which Notice of AGM has been published.

Please find the same enclosed herewith.

Kindly consider and take our submission in your records.

Thanking You Yours faithfully

By order of the Board

For Leading Leasing Finance and Investment Company Limited

Add: Giriraj 2nd Floor KotachiWadi

V.P. Road Girgaon Mumbai 400004

FINANCIAL EXPRESS

Description of secured asset

(immovable property)

Khewat

All that piece and parcel of the propert

321/356,322/357,323/358, H.No 187

admeasuring 76-2/3 Sq. Yds. (684 Sq. Ft.)

St. No. 6, Raseela Nagar, Jamalpu

Awana, Ludhiana, Punjab, India-141001

being: Mcb-Z6-01783, Kh No. 4693 Mir

admeasuring 65.69 Sq. Yds., Vakya Rakb

Surakhpir Road, Bathinda, Punjab, India

All that piece and parcel of the property bein

no. 180/217, 181/218, 182/219, comprised under

2009-2010, situated at village Lohara, Localit

known as Lohara Colony, Near Sunder Naga

H.No 509, admeasuring 76.66 Sq. Yds., Haide

Enclave, Gouri Enclave Part 1, Ludhiana, H 8

Ladiyan Kalan, Ludhiana, Punjab, India-141001.

All that piece and parcel of the property being

Khasra No 11//25/3, 12//18, 12//21/2, 12//22, 12

Plot No. 762, admeasuring 50 Sq. yards Villa

Ludhiana, Punjab, India-141008

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd

Tehsil & Dist. Ludhiana, Punjab, India-141001

Security Interest Act. 2002 (the said Act.) read with Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rule

2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rul

3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as

India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Ac

calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issue

o them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 6

days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest

from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of the Borrower(s), amount due a

being

17-Aug-2022 & Rs.6,74,584/- All that piece and parcel of the propert

(Rupees Five Lakh Sixty Four | House measuring 52 sq. yards, Khewat no/Khato

Only) for 866533 & Rs.3,17,403/- Khasra no. 832, 833, 834, as per jamabandi yea

17-Aug-2022 & Rs. 8,68,594.00 /4 All that piece and parcel of the property being

Lakh Thirty Six Thousand Five Plot No. 702, autheasuming to Survey Phagguwal, Village Phagguwal, Haider Enclave

on date of Demand Notice and security offered towards repayment of loan amount are as under:

Demand Notice Date

& Amount

12-Aug-2022 & Rs.6,66,245/-

(Rupees Six Lakh Sixty Six

housand Two Hundred Forty Five

Only) for 837434 & Rs.2,47,476 /-

(Rupees Two Lakh Forty Seven

Thousand Four Hundred Seventy

Six Only) for **942748**

(Rupees Six Lakh Seventy Four

Thousand Five Hundred Eight

Four Only) for 837586 &

Rs.26,858/-(Rupees Twenty Six

Thousand Eight Hundred Fifty

Eight Only)

17-Aug-2022 & Rs.5,64,836/-

Thousand Eight Hundred Thirty Six

(Rupees Three Lakh Seventeen

Thousand Four Hundred and

Three Only) for 942390

(Rupees Eight Lakh Sixty Eight

Thousand Five Hundred Ninety

Four Only)

17 - Aug - 2022

Rs.6,36,553.00 /-(Rupees Six

Hundred Fifty Three Only)

ame of the Borrower(s)/

Guarantor (s)

Mr. Jatinder Kumar

Mrs. Ruby

Mr. Sant Ram

Prospect No 837434

& 942748)

Mrs. Usha Rani

Prospect No 837586

& 924067)

Mr. Major Singh

Mrs. Ranjeet Kaur

Bhullar

& 942390)

Mrs. Baldish, Mr.

No IL10142306)

Mr. Rajiv Pandit

Mrs. Sangeeta Kumari

(Prospect No

IL10107785)

Place:Punjab, Date:20-08-2022

and the circular issued thereunder("SEBI Circular")

Mohan Lal (Prospect

Prospect No 866533

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act.) read with Rule 3 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd.(IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notices under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them. In connection with above, notice is hereby given, once again, to the Borrower(s) to pay within 60 days from the publication of this notice, the amounts indicated herein below, together with further interest from the date(s) of Demand Notice till the date of payment. The detail of theBorrower(s), amount due as on date of Demand Notice and security offered

towards repayment of loan amount are as under:-Description of secured Name of the **Demand Notice** Date & Amount asset (immovable property) Borrower(s) 17-Aug-2022 Rs. All that piece and parcel of the property /Guarantor (s) 1,05,87,661.00/-(Rupees One being : Apartment No. 12A01

787237) If the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and

consequences of the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: IFL HFL A-1C & A-1D, 2nd floor, Noida Sec16, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301/or Corporate Office: IIFL Tower, PlotNo. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana. Sd/- Authorised Officer,

LEADING LEASING FINANCE AND INVESTMENT CO. LIMITED 'IMPORTANT'' CIN: L65910DL1983PLC016712 Regd. Office: 611, Sixth Floor, Pragati Tower 26 Rajendra Place Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

19.04.2022 18-08-2022

Rs.

2,68,055/-

as on

(Inclusive

of Interest

up to

any manner whatsoever.

Opp. Metro Station Delhi-110008 Phone No.: 011 - 65632288, email: leadingleashing@gmail.com, Website: www.llflltd.in INFORMATION REGARDING 38™ ANNUAL GENERAL MEETING

The 38th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) on Friday,09th September, 2022 at 11:00 A.M., in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, Circular No.02/2021 dated January 13, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (Collectively called "relevant circulars") to transact the business set out in the Notice calling the e-AGM. Members will be able to attend the e-AGM through VC/ OAVM. The instructions for joining the AGM will be provided in the notice of the AGM. Members participating through VC/ OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum u/s 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the AGM and the stand alone financial statements for the financial year 2021-22, along with Board's report, Auditor's report and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the members of the Company whose email address are registered with the Company/ company's Registrar and Share Transfer Agent Purva Sharegistry (I) Pvt Ltd (herein referred as 'RTA'). The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.llflitd.in and on the website of the Stock Exchange Le, BSE Limited at https://www.bseindia.com/ and The Metropolitan Stock Exchange of India Limited at https://

Manner of registering / updating email addresses:

Members holding shares in physical mode who have not registered updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same by click on http://purvashare.com/emailand-phone-updation/ or by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN Card at leadingleashing@gmail.com or to Purva Sharegistry (I) Pvt Ltd at support@purvashare.com.Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered/ updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/ update their email addresses by contacting their respective the Depository Participants with whom they maintain their demat accounts or by click on http:// purvashare.com/email-and-phone-updation/oremail tosupport@purvashare.com, along with the scanned copy of their request letter duly signed by the 1st shareholder, providing the email address, mobile number, self- attested copy of PAN and Client Master

Manner of casting vote(s) through e-voting:

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system ("e-voting"). The manner of voting remotely ("e-voting") by members has been provided in the Notice of the AGM which will be mailed to the shareholders. The details will also be available on the website of the Company at www.llflltd.in. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM.

Member(s) who have not registered their email addresses with the Company/Depository, are requested to please follow the above mentioned instructions to register their email addresses for obtaining Annual Report, Notice of the AGM and login details for e-voting and joining the AGM along with detailed instructions.

Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or through e-voting during the AGM. For any query members may contact the Company at 011-23552627.

E-Mail ID: leadingleashing@gmail.com or Company's Registrar and Transfer Agents, M/s. PurvaSharegistry (India) Pvt. Ltd. having their office at 9 Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg, Lower Parel (E), Mumbai, 400011. Contact details: Tel: 23018261 / 23012518 or send an email request at the email id:support@purvashare.com By order of the Board For Leading Leasing Finance and Investment Company Limited

Ami Jinen Shah Place: New Delhi Whole Time Director Date: 18.08.2022 DIN: 06792048 Add: Giriraj 2nd Floor Kotachi Wadi

of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets

Sarwan Vihar, Sanganer, jaipur, Wide Road, South: Plot No. 25.

Demand Notice

Date and Amount

Bid Increase Amount

Bid Increase Amount

Rs.25,000/- (Rupees Twenty

Five Thousand Only)

Five Hundred Forty Only)

Thousand Only)

05-July-2021

Only)

Date of Inspection of property

16-Sep-2022 1100 hrs -1400 hrs

9372258003 Email:- jitendra.gupta1@iifl.com.

tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

Place: New Delhi/Ghaziabad

Place: Kanpur Date: 20/08/2022

Date: 20-Aug-2022

22-Nov-2021

Name of Borrower/

Co-Borrower/Mortgagor

Sanganer, Jaipur, Rajasthan- 302029,

Date: 20.08.2022

Borrower(s)

Co-Borrower(s)

/Guarantor(s)

1. Mr. Yogesh

2. Mrs.Ekta

3.K.S.Decor

(Prospect

Singhal

Industries

(Prospect

No.IL10150157)

.Mr. Satya Narain

Mrs.Anju Singhal

3. Singhal Cables

No.IL10085173)

Kumar

V.P. Road Girgaon Mumbai 400004

Security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account.

the amount(s), mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account.

Mr. Ram Prasad S/o Ramjas, All that piece and parcel of land Date of Demand Notice: 20.07.2021

Plot No. 25-A, Shyam Vihar-A, Near and building, of the Plot No. 25- Date of possession: 18.08.2022

Infront of Railway Station, Sanganer, Jaipur, Rajasthan-302029, In Loan Account No. 2226210180000009.

Rs. 32.46.540/- (Rupees Thirty property bearing Second Floor

Two Lakh Forty Six Thousand without Roof Rights (Left Side

Rs.30,78,893/- (Rupees Thirty property bearing Unit no.001 Plot

Lakh Seventy Nine Thousand no.C-023, GF area admeasuring

Eight Hundred Ninety Three 100 sq.yrds .Type F on Khasra

No:-53105066294, d) IFSC Code:-SCBL0036025 or through Payment Link: https://quickpay.liftfinance.com,

details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office.

the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.

and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.

amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.

possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances.

Rs.40,000/- (Rupees Forty situated in the area of Village Only)

Description of the

Immovable property

Hajyawala, Infront of Railway Station, A, area admeasuring 100 Sq. Yards, situated at Scheme Shyam thereon

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK SECOND FLOOR, GMTT BUILDING D-7 SECTOR 3 NOIDA (U.P.) 201301

POSSESSION NOTICE (for Immovable property) [Rule 8(1)]

Whereas, The undersigned, being the Authorised Officer of Ujjivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation & Reconstruction of

Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the

Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to borrower/ Guarantor on the dates mentioned hereunder: calling upor

The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Co

Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property

described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the

The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 1:

The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to dea

with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank Ltd. for an amount of for

Juice Centre, Shop No. 01, Plot No. 558, bounded as follows: Boundaries: East: 35 Feet Wide Road, West: Others, North: 30 Fee

Rajasthan-302029 and Co-Borrowers/ Mortgagors Mrs. Laxmi Sahu W/o Ram Prasad, Plot No. 25-A, Shyam Vihar-A, Near Hajyawala

Place: Jaipur

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties Sale of Immovable property mortgaged to IFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at

Plot No.98,Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon-122015. (Haryana) and Branch Office at:- Plot No. 30/30E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg.

Najafgarh Road, Beside Jaguar Showroom, Moti Nagar, New Delhi and Office No 1, First Floor, Mahaluxmi Metro Tower, Plot No. C -1, Sector - 4

Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201010 under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

Act, 2002(hereinafter "Act"). Whereas the Authorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/les pursuant to the notice

issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos, with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS" for

realization of IIFL-HFL's dues, The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website; www.bankeauctions.com.

Description of the Immovable

property/ properties

All that part and parcel of the

Portion), Land admeasuring 65

sq.yards , built on Property Bearing

No. T-190 out of khasra no. 18,19

Bindapur, Colony Known as T-Block

Uttam Block , New Delhi 110059

All that part and parcel of the

no.802, Shouryapuram Shahpur

Bhamela situated at Ghaziabad,

EMD Last Date

19-Sep-2022 till 5 pm.

Mode Of Payment:- All payment shall be made by demand draft in favour of "IIFL Home Finance Limited" payable at Gurugram or through RTGS/NEFT

he accounts details are as follows: a) Name of the account:-IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:-Standard Charted Bank Ltd., c) Account

For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well in

advance and has to create the login account, login ID and password, Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment

The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of

The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land

Bidders are advised to go through the website https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for

support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291961124/25/26.and any property related query Mr.Jitendra Gupta @+91-

Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical

detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.

Further the notice is hereby given to the Borrower's, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the

10. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in

STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction,

6. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:

3. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the

Uttar Pradesh India.

the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice.

LEADING LEASING FINANCE AND INVESTMENT CO. LIMITED CIN: L65910DL1983PLC016712 Read, Office: 611, Sixth Floor, Pragati Tower 26 Raiendra Place

Opp. Metro Station Delhi-110008 Phone No.: 011 - 65632288,

email : leadingleashing@gmail.com, Website: www.lifittd.in NOTICE Notice is hereby given that 38th Annual General Meeting of members

of Leading Leasing Finance and Investment Company Limited will be held on Friday, 09th September, 2022 at 11:00 A.M through video conferencing (VS)/other audio visual means (OAVM) accordance with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circula

Vo.17/2020 dated April 13, 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 issued by SEBI ("circulars"), and owing difficulties involved in dispatching physical copies, the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22has peen sent to member of the company, whose email registered with Company RTA on August18, 2022. Members may note that the Company will not send physical/ hard copies of the Annual Report 2021-22 and Notice of AGM. Since the AGM is being held through VC/ OAVM pursuant to the Circulars

hysical attendances of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for the appointment of proxies by the members will not be

Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email addresses with the Company, are requested to register/ update the same with the company's Registrar and Share Transfer Agent Purva. Sharegistry (I) Pvt Ltd (herein referred as 'RTA') at support@purvashare.com. lease note that the aforesaid documents are also available on the Company's website at www.llflitd.in and on the website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited and The Metropolitan Stock Exchange of India imited and at website of NSDL also www.evoting.nsdl.com. Notice is further given that pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the companies (Management

Company is providing its members facility to exercise their right to vote by lectronic means and the business as set out in the Notice may be transacted rough remote e-voting by NSDL. The members may note the following: Members holding shares as on cut- of date i.e. Friday 02nd September 2022may cast their vote electronically on the ordinary business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period shall commence on Tuesday, 06th September, 2022 at 9.00 A.M till Thursday, 06th September, 2022 at 5.00 P.M.

and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulations, 2015, the

Members of the company holdings shares either in physical or Dematerialized form, as on the Cut -off date, may cast their vote either electronically during the remote e-voting period. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

he Company has appointed Mr. Vivek Kumar, Practicing Company Secretary f M/s V Kumar and Associates as the Scrutinizer to Scrutinize the eoting process in a fair and transparent manner. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 03th September, 2022 to Friday, 09

September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General n case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the

Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990. For any further grievance related to the Remote E-voting, members may contact NSDL at the following contact information: Phone No.+91 22 24994545, +91 22 24994559

By order of the Board

Date of Demand Notice and

Date of possession

Date of Physical Possession

As On Date 05-Aug-2022

Rs. 31,80,900/- (Rupees

Thirty One Lakh Eighty

Thousand Nine Hundred

Date of Physical Possession

As On Date 17-Aug-2022

Rs.35,80,578/- (Rupees

Thirty Five Lakh Eighty

Total Outstanding

Seventy Eight Only)

05-Aug- 2022

Total Outstanding

04-Aug-2022

Vihar-A, Village Hajyawala, Near Railway Station Sanganer, Jaipur Rajasthan, which i

Amount as per

demand notice

Rs. 19.69.960/- as on

19.07.2021 & interest

Authorised Officer

Reserve Price

Rs.29.43.000/- (Rupees

Twenty Nine Lakh Forty

Earnest Money Deposit (EMD

Rs.2,94,300/- (Rupees Two

Lakh Ninety Four Thousand

Reserve Price

Rs.28.84.300/- (Rupees

Twenty Eight Lakh Eighty

our Thousand Three

Earnest Money Deposit (EMD)

Lakh Eighty Eight Thousand

Sd/-Authorised Officer,

New Delhi

IIFL Home Finance Limited

Four Hundred Thirty Only)

Three Hundred Only)

Hundred Only)

Thousand Five Hundred Rs. 2,88,430/- (Rupees Two

Date/ Time of E Auction

21-Sep-2022 1100 hrs-1300 hrs.

Three Thousand Only)

For Leading Leasing Finance and Investment Company Limited Ami Jinen Shah Place: New Delhi Whole Time Director Date: 18.08.2022 DIN: 06792048 Add: Giriraj 2nd Floor Kotachi Wad/ V.P. Road Girgaon Mumbai 400904

the said Borrowers fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secure

assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of

the Borrowers. For, further details please contact to Authorised Officer at Sco 32, 2nd Floor, Pal Plaza, B Block, Ranjee

Avenue, Amritsar, Punjab-143006, Corporate Office: IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana

SHIVA CEMENT LIMITED CIN: L26942OR1985PLC001557 Regd Office: Shiva Cement Limited, Telighana, PO: Birangatoli, Tehsil-Kutra,

District-Sundargarh Odisha- 770018 Email - investors@shivacement.com NOTICE OF THE 36™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING AND BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that 36th Annual General Meeting of Shiva Cement Limited will be held on Monday, the 12th September, 2022 at 12.00 P.M through Video Conferencing/ Other Audio Visua Means (VC/OAVM), in accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act") and circular issued thereunder ("MCA Circulars") read with the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular, the Notice of the 36th AGM along with the Annual Report 2021-22 as well as login details for e-voting and process for joining the AGM through VC/OAVM is being sent through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositors. For Members holding shares in physical form and who have not registered/updated their email addresses with the Company need to submit Form ISR-1 for registration/updation of their email addresses, ISR-2 (In case you have changed your signature SH-13 for registration of Nomination or ISR-3 in case you do not want to register nomination) Requisite forms are available on website of the Company www.shivacement.com or at www.nichetechpl.com either in hard copy to Niche Technologies Private Limited or by way of e-mail to

Members are requested to follow the process as guided to capture the email address and mobile number for sending the soft copy of the notice and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any queries, the shareholders may write to nichetechpl@nichetechpl.com. Members may note that the Notice of the 36th AGM and the Annual Report 2021-22 will also be available

on the Company's website www.shivacement.com, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OVAM will be counted for purpose of reckoning the guorum under Section 103 of the Companies Act. 2013.

The Company is providing the remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting during the AGM ("e-voting") to those Members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote through remote e-voting. Detailed procedure for remote-voting/e-voting for shareholders holding shares in Dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email address is provided in the Notice of

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made there under and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Register of Members and share transfer books of the Company will remain

closed from Wednesday 7th September, 2022 to Friday 9th September, 2022 (both days inclusive). By order of the Board of Directors

Place: Sundargarh Date: 19th August 2022 Shiva Cement Limited Sneha Bindra

Company Secretary

agriwise AGRIWISE FINSERV LIMITED

(Formely Known as Star Agri Finance Limited) Registered office: 601-604, 6th Floor, Sahar Plaza Complex, Bonanza International, Near J B Nagar Metro Station, Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai- 400059

POSSESSION NOTICE [(Appendix IV) Rule 8(1)] Whereas the Authorized officer of Agriwise Finsery Limited formerly known as

Star Agri Finance Limited, a Non-Banking Financial Company under the provision of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) (hereinafter referred to as "Act") having its Registered Office at 601, 6th Floor, Sahar Plaza Complex Bonanza International, Andheri Kurla Road, Near J B Nagar Metro Station, Chakala Andheri (East), Mumbai- 400059 (hereinafter referred to as "Morgagee") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice dated 05-April-2021 calling upon: The Borrower, Co-Borrowers and security providers i.e. Harjinder Singh S/o Pyara Singh, Mrs. Amarjit Kaur W/o Harjinder Singh M/s Dhillon Dairy, R/o H No 4784 Aare Wali Gali Tehsil Nissing Distt Karnal Nr. Cooperative Bank Haryana 132024 125201 Also At: H No. 91 Block No.3 Dachar Teh Karnal, Distt. Karnal, Buta Singh Colony V. P. Nissing Haryana to repay the amount

receipt of the said notice. The borrower/Guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) And of Section 13 of Act read with Rule 8 of the

Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 17th day of Aug. 2022.

mentioned in the notice being of Rs. 60,72,363/- (Rupees Sixty Lakh Seventy Two

Thousand Three Hundred Sixty Three Only) due as on Dated 23-March-2021

along with the applicable interest and other charges within 60 days from the date of

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of 'Agriwise of Rs.60,72,363/- (Rupees Sixty Lakh Seventy Two Thousand Three Hundred Sixty Three Only) along with the applicable interest and other charges."The attention of borrower is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured asset,

(Details of Security/ Mortgaged Property No.1) All That Piece And Parcel Of Property Plot Comprised In Khewat No. 978, Kitte 12, Rakba 42 Kanal 10 Marle Its 1/85 Share i.e. 10 Marle // 328 Sq.yards, Situated In Rakba Nissing, Butta Colony (Inside Nagar Palika) Tehsil Nissing And District Karnal, Measuring 10 Marle// 328 Sq. Yards Approx. (Dimensions As Per Deed), and Bounded By:

(Details of Security/ Mortgaged Property No.2) All that piece and parcel of

property Plot Comprised in Khewat No.978, Kitte 12, Rakba 42 Kanal 10 Marle Situated In Rakba Nissing, Butta Singh Colony (inside Nagar Palika) Tehsil Nissing And District Karnal, Measuring 16 Marle// 481 Sq. Yards Approx (Dimensions As Per Deed), and Bounded By: M/S Agriwise Finserv Limited Date: 17/08/2022

Place: Karnal

Formerly Known as StarAgri Finance. Ltd.

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)

property will be subject to the charge of IFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the

'The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, If the borrower clears the dues of the "IFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IIFL HFL" and no further step shall be taken by "IIFL HFL" for transfer or sale of the secured assets. Description of secured asset Total Outstanding Dues (Rs.) (immovable property)

Name of the Borrower(s) Demand Possession Agra BRANCH Notice Mr. Jeetu Goswami, All that piece and parcel of: House On Plot No. 73 Rs. 12,45,896/- (Rupees Goswami Enterprises and admeasuring 60 sq.yds., Khasra No. 253, 236, Twelve Lakh Forty Five 26-Apr-17-Aug-22 Mrs. Gudiya Devi (Prospect | 238, Omshree Green Homes, Phase I, Mauza | Thousand Eight Hundred | Naglakali, Agra, Uttar Pradesh, India, 282007

Mr. Deepak ,Mrs.Hemlata & All that piece and parcel of : House Built On Part of Rs. 10,69,758/- (Rupees RAGAV PHOTOGRAPHY Plot No.-51-A,Kh.No.248 Minjumla, Area Ten Lakh Sixty Nine 26-May-17-Aug-22 (Prospect No. IL.10113059) Admeasuring 40.75 Sq.Mtrs., Defence Paradise Thousand Seven 2022 Mauza Semari, Agra, Uttar Pradesh, India, 282009 Hundred Fifty Eight Only) For, further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Unit No 309, Third Floor, Padam Business Park,

Plot no. INS-1, Sector 12A, Awas Vikas, Sikandra Yojna, Agra, 282007/ or Corporate Office: Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana. Place: Agra Date: 20/08/2022 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited

Mrs. Kinty Suri, Mrs. Narinder Crore Five Lakh Eighty Seven admeasuring 417.68 Sq. Mtrs. (Super Kaur Suri, Rimrock Infrastructure Pvt. Ltd., Thousand Six Hundred Sixty Area), 13th Floor, Tower No. 6, Lotus 300, Mr.Surpreet Singh Suri, Vistar One Only) Interior LLP (Prospect No.

GH 01 Beta-1, Sector-107, Noida, Uttar Pradesh, India-201306

Place: Noida Date: 20.08.2022

For IIFL Home Finance Ltd

बड़ोदा यू.पी. बेंक Regional Office : First Floor, Samarth Complex, Opposite CARI Gate, Near Kurmanchal Nagar, Baroda U.P. Bank

Old Pilibhit Road, Bareilly

POSSESSION NOTICE

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest, Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) & 13(2) read with rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notices calling upon the under mentioned borrowers/guarantors to repay the amount mentioned in the notice with further interest expenses and other charges, etc. thereon within 60 days from the date of said notice.

Whereas, the undersigned being the authorised officer of the Baroda U P Bank under the Securitisation and

The borrowers/guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/ guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said act read with rule 9 of the said rules on this 03.06.2016.

The borrowers/guarantors is particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property will be subject to charge of the Baroda U.P. Bank of amount mentioned in the notice with further interest, expenses and other charges etc. thereon

ACCOUNT WISE FULL DESCRIPTION AS UNDER

Date & Amount Date of Name & Address of The Description of Property Possession Notice Borrowers. Section 13(2) Mrs. Shaheen Begum w/o Residential House No. 144/8, measuring 36.50 sq.yards 19.04.2022 18-08-2022 Mr. Anees Miyan H.N. (out of total house measuring 87 3/9 sq yards / 73 sq. mtrs) Rs. 144/8, Bankhana , surkha situated at mohalla Bankhana Maroof Surkha Chawni, 3,55,081/chawni Near Shiv Colony, Bareilly, Owner :- Mrs. Shaheen Begum w/o Mr. Anees as on Tehsil-Bareilly Distt.- Miyan, H. N. 144/8, Bankhana, surkha chawni, Near Shiv 31-03-2022 Bareilly-243122 Colony, Tehsil-Bareilly , Distt.-Bareilly-243122, Present (Inclusive of Boundries: East- H/o lkhlas Begum, West- H/o Sagina, Branch-Koharapeer Interest up to

A/c No-55990400000314 | North-Shahid Bhai, South-Rasta 6 wide 31-03-2022) Mr. Abdul Khalid S/o 1-House Property measuring 83.61 sq.mt, situated at Abdul Waheed Urf Kallu , Surkha Chhawni , Tehsil & Distt-Bareilly in the name of R/o- Chavni Ashraf Khan Mr. Abdul Waheed urf Kallu S/o Late Abdul Kareem R/o near Badi Masjid ,Teh & Ashraf Khan Chhawni , Teh & Distt Bareilly, 2-Property, Distt-Bareilly, 243122 measuring 49.79 sq mtrs, situated at Ashraf khan 31-03-2022 chawani, Bareilly in the name of Mohd Arif S/o Babu Mian Branch- Koharapeer A/c No-55990600000653 R/o 125, Domini Masjid Bareilly, Present Boundries of Property 1: East- House of Zubair, West- Raasta 20 ft, North- Raasta 5 ft wide and prop Abdul Azeem, South-31-03-2022) House of Smt Bilkees Begum, Present Boundries of Property 2: East- House of Aziz, West- Raasta 20 ft.

North-Raasta 14 ft width, South-House of Gaffar Note- Publication is done carefully. If any discrepancy occurs, contact respective branch. Authorised Officer, Baroda UP Bank, Date-20-08-2022 Region-Bareilly

Mobile-7839884270, 7839884227 INDIAN OVERSEAS BANK S-9A/1 & 2, Shalimar Garden Extn-II, Sahibabad, Distt. Ghaziabad, Phone No. 0120-2637635

AUCTION NOTICE FOR JEWELS Jewels pledged with our Indian Overseas Bank, Shalimar Garden were not redeemed. Even after sending prior information borrower has not paid. Hence pledged jewels are brought for auction on "As is what is basis" on 07th September, 2022 at 12:00

TO 02:00 P.M. at Shalimar Garden Branch. Name & Address of | Gross weight | Net weight Reserve Price & EMD Gold Loan Account Number, No. Date & Amount Due the borrower in Grams in Grams Amount (25%) Account No 163403462000049 Mr. Shabnam Khan. 128.336 121.000 Reserve price will be 90% IFSC: IOBA0001634, of gold price on the day of 48/5. Labour grams grams Account Type: Loan auction. Reserve price will Colony-3, Lal Articles: 20 Articles Rs.3.01,482/- (Rupees Three Lac One | Quarters, Samypur be fixed upon market rate on 20 auction day gold Rate in Thousand Four Hundred Eighty Two Ghaziabad-201001 only) plus interest and other charges

The Borrower has right to redeem the Gold/ Jewels prior to auction. The borrower should repay the amount within 15 days of the publication of this notice, failing which the bank will auction the jewels and use the amount for recovery of its loan, interest and other expenses

No responsibility attaches to the Bank for quality and the specifications of the jewels. The jewels are being auctioned on "as

is what is" condition, at the risk of the borrower and the purchaser. Bidder to satisfy themselves regarding the purity, quality 2. The Jewels proposed to be auctioned may be inspected during the office hours in the presence of the branch manager/ officer

Interested persons can contact the concerned Branch Manager to obtain the bid form.

The Bank reserves its right to rejects any bid without assigning any reason what so ever.

The auction shall be confirmed by the Bank at its own discretion. All taxes as applicable shall be paid by the Bidder.

CONDITIONS FOR AUCTION:

Description of Secured Asset

(more fully described in Schedule of the properties hereto)

Those interested in taking part in the auction should remit a refundable interest free Earnest Money Deposit (EMD) of 25% of the reserve price of the specified item through NEFT / RTGS Transfer in the. Account No 16340113301010, in the name of Authorized Officer, With Indian Overseas Bank, Shalimar Garden Branch, IFSC Code IOBA0001634 on or before 12:00 P.M. 07th September 2022 along with Bid form and get the receipt.

Auction will take place on 07th September 2022, from 12:00 P.M to 02:00 P.M at Indian Overseas Bank, Shalimar Garden

That the sale will be subject to confirmation by respective Regional Offices/FGM Office/ Central office depending on their discretion That in case, the sale is not confirmed, the bid amount would be returned to the bidder without interest.

 That the bank's decision on finalizing the auction (either to accept or to reject) is final (g) that the bank has every discretion to postpone or cancel the auction without assigning any reason thereof The bid amount cannot be less than the reserve price fixed. The highest bidder will be declared as the successful purchaser.

The successful purchaser will be required to deposit within three days the balance bid amount after adjusting the EMD amount failing which his / her bid will be cancelled and the EMD amount forfeited. No extension of time will be granted for payment of the

balance bid amount. The successful purchaser will be issued a Sale certificate on payment of total sale consideration.

Authorised Officer, Indian Overseas Bank Date: 19.08.2022

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD.

Registered Address: Tower A, 11th Floor, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013, Branch Address: 7th Floor, Videocon Tower, Block E-1, Jhandhewalan Extension, New Delhi 110055

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

(Under Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Loan Account No. 4844779: STUDIO VISTA ANIMATIONS PVT LTD

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower/Co-Borrower that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Financial Services Ltd. (Secured Creditor/TCFSL), the Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Tata Capital Financial Services Ltd. (Secured Creditor), pursuant to notice under Section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) (No. 54 of 2002) The following immovable properties will be sold on 13th September 2022 on "As is where is basis" & "As is what is and whatever

Whereas the sale of secured asset is to be made to recover the secured debt and whereas there was a due of a sum of Rs.1,87,46,066/-(Rupees One Crore Eighty Seven Lacs Forty Six Thousand & Sixty Six Only) vide Loan Account 4844779 as on 05.07.2021 demanded vide Notice U/s. 13(2) dated 05th July 2021 from Borrower & Co-Borrowers/Guarantors i.e. 1. STUDIO VISTA ANIMATIONS PVT LTD, represented by its Director Vijay Sharma, 2. VIJAY SHARMA, 3. Triambke Info Technologies Pvt Ltd Represented Through its Director Vijay Sharma, 4. Mrs. Smita Sharma, 5. Prema Sharma Alise Prem Kanta.

Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/ discontinuance of the sale, the said property shall be sold by E-Auction at 2.00 P.M. on the said on 13th September 2022 by TCFSL, having its branch office at 7th Floor, Videocon Tower, Block E Jhandhewalan Extension, New Delhi-110055. The sealed E- Auction for the purchase of the property along with EMD Demand Draft shall be received by the Authorized Officer of the TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD till 5.00 P.M. on the said 12th September 2022.

Reserve

Type of

Earnest

	Possession Constructive/ Physical	(Rs)	Money (Rs)
Property 1: Ground Floor, built on Western Side admeasuring 277 Square yard on the portion of Plot no C-77 Shivaji Park Punjabi Bagh New Delhi -27 admeasuring 554 Square yard situated in the approved colony known as Shivaji Park New Delhi -110027 and all proportionate right and share in the land and stilt parking and other rights and easements. Bounded as North: Road, South: C-78, East: Company Land, West: Road		Rs. 2,27,21,000/- (Rupees Two Crore Twenty Seven Lakh(s) Twenty One Thousand Only)	Rs. 22,72,100/- (Rupees Twenty Two Lakh(s) Seventy Two Thousand One Hundred Only)

The description of the property that will be put up for sale is in the Schedule. The sale will also be stopped if, amount due as aforesaid interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the 'Authorized Officer' or proof is given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid. At the sale, the public generally is invited to submit their tender personally. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the rules/conditions prescribed under the SARFAESI Act, 2002. The E-auction will take place through portal https://bankauctions.in/ on 13th September 2022 between 2.00 PM to 3.00 PM with unlimited extension of 10 minutes each. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD." payable at Delhi. Inspection of the property may be done on 02nd September 2022 between 11.00 AM to 5.00 PM.

Note: The intending bidders may contact the Authorized Officer Mr. Ayan Bhattacharya / Mr. Devraj Singh., Email id Ayan.Bhattacharya@tatacapital.com / Devraj.Singh@tatacapital.com and Mobile No. +91 9289724447 / 9999316585. For detailed terms and conditions of the Sale, please refer to the link provided in secured creditor's website, i.e. https://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/tcfsl/AUCTIONTERMS%26CONDITIONS.pdf, or contact Authorized

Officer or Service Provider- M/s. 4Closure Place: - New Delhi Authorized Officer, Date- 20th August 2022 Tata Capital Financial Services Ltd. Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act

failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorised Officer of the company to the borrowers / co-borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IIFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IIFL

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8-(1)

HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "liFL HFL" and no further step shall be taken by "liFL HFL" for transfer or sale of the secured assets. Total Outstanding Dues (Rs.) Description of secured asset Date of Date of Kanpur BRANCH (immovable property) Prospect no. 761422 Rs. 20,62,073/-Motion Possession

Mr. Rohit Gupta and	All that piece and parcel of House.	(Rupees Twenty Lakh Sixty Two	MUTICE	
Mrs. Sushma Gupta	No.3-373, Ews. Awas Vikash.	Rupees Twenty Lakh Sixty Two Thousand And Seventy Three Only) prospect no 818757 Rs. 1,16,416/- (Rupees One Lakh Sixteen Thousand Four Hundred and Sixteen Only)	12-Apr.	17-Aug-2
Mr.Raju Gurung			23-Apr- 2022	17-Aug-2

Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Limited

Kanpur-208001/or Corporate Office: Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana.

financialerp.epap.in

√लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कं. लिमिटेड

सीआईएन : L65910DL1983PLC016712

पंजीकृत कार्यालय: 611, छठी मंजिल, प्रगति टॉवर, 26 राजेन्द्र प्लेस,

सामने मेट्रो स्टेशन, दिल्ली-110008

दूरभाष: 011-65632288

ई-मेल: leadingleashing@gmail.com, वेबसाइट: www.llflltd.in

एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेर

के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअत

साधनों (ओएवीएम)के माध्यम से शुक्रवार, 09 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे पूर्वा. आयोजि

परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 (एमसीए) के साथ पठित परिपत्र संख

14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 अं

सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 अनुपालन में तथा भौतिक प्रतियाँ भेजन

की कठिनाइयों के कारण एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कम्पनी के

सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई-मेल 18 अगस्त, 2022 तक कम्पनी / आरटीए

साथ पंजीकृत थे। सदस्य ध्यान दें कि कम्पनी वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 तथा एजीएम व

चूँकि परिपत्रों के अनुसार एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही

अंतरू सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गयी है। तदनुसार एजीएम हेतू सदस्र

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले तथा जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ईमेल

शेयरजिस्ट्री (इंडिया) प्रा.लि. (इसके पश्चात 'आरटीए' सन्दर्भित)

support@purvashare.com पर ई-मेल करके इसे पंजीकृत/अपडेट करा लें।

पंजीकृत/अपडेट नहीं कराये हैं वे कृपया कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट पूव

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.llfiltd.in तथा स्टॉ

एक्सचेंज अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया की वेबसाइट तथा द मेट्रोपोलिटन स्टॉ एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.cor

डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ई-मेल पते अप

डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ पंजीकत / अपडेट नहीं कराये हैं. वे कपया अपने ई-मेल

अपने डीमैट खाते प्रबंधित करने वाले संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों से सम्पर्क करके पंजीव

यथासंशोधित कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 तथा विनियम, 2015 के नियम :

के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार एतद्वारा पुनरू सूचना

जाती है कि कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सदस्यों को अपने मताधिकार का उपयोग कर

की सुविधा उपलब्ध करा रही है और सुचना में निर्धारित प्रकार्य का लेन-देन एनएसडीए

द्वारा प्रावधानित रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्य निम्नलिखित प

i. कट–ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 2 सितम्बर, 2022 तक शेयर धारण करने वाले सदर

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्ट

के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य प्रकार्यो पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अप

मतदान कर सकते हैं। ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 6 सितम्बर, 2022 (9.00 बजे पूव

कट-ऑफ तिथि तक भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी

सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के दौरान इलेक्टॉनिक रूप से या एजीएम के दौरान ई-वोटि

के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम

मतदान किया वे एजीएम में उपस्थित रहने के पात्र हैं। हालाँकि वे एजीएम में मतदा

-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संवीक्षा के लिए कम्पनी ने श्री विवेक कुमा

मैसर्स वी कुमार एण्ड एसोसिएट्स के कार्यरत कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियु

वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिव

शनिवार, 3 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 9 सितम्बर, 2022 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक ब

किसी पूछताछ के लिए आप https://www.evoting.nsdl.com पर डाउनलोड खण्ड

तहत उपलब्ध सदस्यों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा सदस्यों हेतु ई-वोटिं

युजर मैनुअल का सन्दर्भ ले सकते हैं या एनएसडीएल से टोलफ्री नं. 1800-222-990

सम्पर्क करें। रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित किसी अन्य शिकायत के लिए सदस्य एनएसडीए

प्रारम्भ होगी और गुरुवार, 8 सितम्बर, 2022 (5.00 बजे अप.) समाप्त होगी।

सूचना की भौतिक / हार्ड कॉपी नहीं भेजेंगी।

द्वारा प्रॉक्सी की नियक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी

("परिपत्र") द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ

(सीआईएन: L72900DL2012PLC244966) पंजीकृत कार्यालयः एम-140, ग्रेटर कैलाश पार्ट-।।, नई दिल्ली-110048 निगमित कार्यालयः क्लब 125, भूखंड सं. ३, ४, ५, टॉवर ए, चतुर्थ तल, सेक्टर-125, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश दूरभाषः 91 120 5057 000; ईमेलः companysecretary@rategain.com

वेबसाइटः www.rategain.com

पर आयोजित होनेवाली 10वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020

परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020 परिपत्र संख्या 02 / 2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या 19 / 2021 दिनांकित 08 दिसंब 2021, परिपत्र सं. 21/2021 दिनांकित 14 दिसंबर 2021 तथा परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांकित 0 मई 2022 ('एमसीए परिपत्रों') के द्वारा तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपर सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई 2020 सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांकित 15 जनवरी 2021 ए परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 म 2022 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए परिपत्र एवं सेबी परिपत्र सामूहिक रूप में ''परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित के द्वारा बैठक में सदस्यों व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। इन उपर्युक्त परिपत्रों तथा कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन में, कंपर्न की 10वीं एजीएम का आयोजन मंगलवार 20 सितंबर 2022 को दोपहर 12.00 बजे (भा.मा.स.) प वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का लेन-देन करने लिए संपन्न किया जा सकेगा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भागीदारी करनेवाले सदस्यों व गणना, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के अंतर्गत गणपूर्ति के उददेश्यार्थ की जाएगी।

एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') www.bseindia.com पर, नेशनल स्टॉव एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') की वेबसाइट www.nseindia.com पर और एनएसडीएट की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे। ईमेल पते पंजीकरण/अद्यतन की प्रविधि भौतिक प्रारूप में अंश धारण करनेवाले सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर कंपनी व साथ पंजीकत नहीं किए हैं. उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी को companysecretary@rategain.con पर एक ईमेल लिखकर तथा/अथवा केफिन टेक्नोलोजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और अंश अंतरण

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचन

की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां तथा ई-वोटिंग हेतू लॉगिन विवरण, कंपनी उन सदस्यों को प्रेषित किए जाएं

जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथ

वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22, कंपनी की वेबसाइट www.rategain.com के इंवेस्टर्स सेक्शन पर, स्टॉव

अभिकर्ता ('आरटीए') को einward.ris@kfintech.com के माध्यम से प्रेषित कर अपने ईमेल पते एव मोबाइल नंबर अद्यतन कर लें। और जो अंशधारक अभौतिक प्रारूपण में अंशों का धारण किए हुए हैं, और जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभाग ("डीपी") के साथ अपने ईमेल पते तथा मोबाइल नंबर्स पंजीकृत/अद्यतन नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे डीपी तथा उनके जिनके पास वे अपने डिमेट अकाउंट्स अनुरक्षित करते हैं, व

साथ अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत/अद्यतन कर लें।

ई-वोटिंग के माध्यम मतदान करने की प्रविधि कंपनी अपने सभी कंपनी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई-वोटिंग'') उपलब्ध करा रही है ताकि सदस्यगण एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार समस्त संकल्पों पर अपना मतदान कर सकें इसके अतिरिक्त, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ("ई–वोटिंग") मतदान की सुविध उपलब्ध करा रही है। रिमोट ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया, भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण करनेवाले अथवा अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कर पाए ऐसे सदस्यों सहित, को एजीएम की सूचन

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में निर्धारित टिप्पणियों तथा विशेषकर एजीएम से जुड़न के बारे में निर्धारित अनुदेशों, रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदा करने की प्रविधि के बारे में प्रस्तुत विवरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसा कृते रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेर

प्राधिकत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

जमानत धनराशि

थॉमस पी. जोशुअ

दिनांकः 19 अगस्त 2022

स्थानः नई दिल्ली

पता : गिरिराज, दूसरी मंजिल, कोटाचीवाई वी.पी. रोड गिरगाँव, मुम्बई-4000

बोर्ड के आदेशानुसा कृते लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेर

पंजाब नैशनल बैंक 😉 punjab national bank मंडल सस्त्र कार्यालय- देहरादून 1, पीएनबी हाउस, पल्टन बाजार, क्लॉक टॉक्र, देहरादून, (उत्तराखण्ड)

से निम्नलिखित दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं

दुरभाष नं. : 91 22 24994545, 91 22 24994559

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18.08.2022

जबकि, पंजाब नैशनल बैंक की तरफ से प्राधिकृत अधिकारी ने सिक्युरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गेत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सिक्योरिटी इंटरेस्ट 2002 के साथ 60 दिनों के भीतर नोटिस में निहित रकम की अदायगी हेतु एक डिमांड ऋणी के द्वारा रकम की अदायगी न करने के कारण निम्नलिखित ऋणकर्ता एवं जन साधारण को नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के सम

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति हेत्)

अंकित तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधोलिखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेषत जन साधारण को एतद द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे संबंधित परिसम्पत्ति की खरीद फरोख्त न करें तथा इन परिसम्पत्ति के किसी भी क्रय विक्रय के लिए यहाँ नीचे प्रत्येक खाते के समक्ष रकम उस पर देय ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार अधीन होंगे । कर्जदार का ध्यान, प्रत्यामूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं। . 🕠 चिपकाये गये मांग नोटिय के

新0 सi0	शाखा / ऋणी / गारन्टर / बंधककर्ता के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा नोटिस की तिथि	भाग नाटिस क अनुसार बकाया एकम
1.	शाखाः रेस कोर्स, देहरादुन ऋणीः श्री चन्द्र शेखर पुत्र श्री चंद्र एवं श्रीमती धनिता शेखर पत्नी चन्द्र शेखर एवं बंधककर्ताः श्रीमती धनिता शेखर पत्नी चन्द्र शेखर।	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व भूखंड, खसरा नं0 212 रकबा 200 वर्ग मीटर, स्थित मीजा बंजारावाला परगना केन्द्रिय दून, जिला- देहरादून। बही नं0 1, जिल्द नं0 2918, पेज नं0 265 से 298, क्र0सं0 236, दिनांक 01.01.2010, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून, सम्पत्ति स्वामी श्रीमती धनिता शेखर पत्नी धन्द्र शेखर के नाम पर पंजीकृत है। सीमाएँ:- पूर्वः अन्य की भूमि, पश्चिमः श्री एस एस नेगी की सम्पत्ति, उत्तरः श्री एन0 के0 जदली की भूमि, दक्षिणः 30 फीट चौड़ा रास्ता।	30.04.2022	18.08.2022	रू0 48,52,330/- + ब्याज एवं अन्य खर्षे दिनांक 01.05.2022
2.	किरण नेगी एवं गारन्टर/बंधककर्ताः श्री शिशुपाल सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री श्याम सिंह	बंधक भूमि खसरा नं0 18 मिन, रकवा 2176 वर्ग फीट, अर्थात् 202.23 वर्ग मीटर, स्थित मीजा, शाहनगर, परगना परवा, जिला- देहरादून, बही नं0 1, जिल्द नं0 498, पेज नं0 123 एवं अतिरिक्त फाइल नं0 1, जिल्द नं0 941, पेज नं0 223 से 244, क्र0सं0 609, दिनांक 23.01-2001, सब-रिजस्ट्रार ऑफिस देहरादून, सम्पत्ति स्वामी श्री शिशुपाल सिंह नेगी पुत्र स्व0 श्री श्याम सिंह नेगी। सीमाएँ:- पूर्वः बिष्ट जी की भूमि, माप 64 फीट, पश्चिमः कमलेश कुमार की भूमि, माप 64 फीट, उत्तरः क्रेता की भूमि, माप 34 फीट, दक्षिणः 25 फीट चीड़ा रास्ता, माप 34 फीट।		18.08.2022	₹0 44,08,253/- + আন एব अन्य ভাব বিশাক 01.05.2022
3.	किरण नेनी एवं गारन्टर/बंधककर्ताः श्री शिशुपाल सिंह नेनी पुत्र स्व0 श्री श्याम सिंह नेनी एवं	प्रभार का विस्तार बंधक भूमि एवं विल्डिंग, खाता नं0 67 (फसली वर्ष 1422 से 1427), पुराना खाता नं0 57 (फसली वर्ष 1416 से 1421), खसरा नं0 206 का भाग रकवा 0.0100 हैक्टेयर अर्थात् 100 वर्ग मीटर एवं खसरा नं0 207Ka रकवा 0.0180 हैक्टेयर अर्थात् 180 वर्ग मीटर कुल रकवा 0.0280 हैक्टेयर अर्थात् 280 वर्ग मीटर, स्थित मीजा दूधली, परगना परवा दून, तहसील डोईवाला, जिला- देहरादून, वही नं0 1, जिल्द नं0			44,08,253/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक 01.05.2022
	श्रीमती किरण नेगी पत्नी श्री ब्रिजेश कुमार नेगी।	6,878 एवं पेज नं0 167 एवं 188, क0सं0 2666, दिनांक 27.06.2016, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस देहरादून, सन्पति	त स्वामा श्रामता	करण नग पत्ना १	प्रााबनश कुमार नगा

के नाम पर पंजीकृत है। सीमाएँ:- पूर्वः नाला (पानी की गोल), पश्चिमः अन्य की भूमि, उत्तरः 20 फीट चौड़ा रास्ता तत्पश्चातु विकेता की भूमि, दक्षिणः विकेता की भूमि दिनांक: 19.08.2022

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, भावलखेड़ा-शाहजहाँपुर

पत्रांकः-C-384/ क्षेत्र पंचायत/टेन्डर/2022-23/

क्रमांक | कार्य का नाम

समस्त पंजीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि विकास खण्ड भावलखेड़ा जनपद शाहजहाँपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु केन्द्र वित्त /राज्य वित्त आयोगसे निम्न विवरण के अनुसार निर्माण कार्य कराने हेतु मोहर बन्द निविदाये आमंत्रित की जाती है ।

योजना का नाम

धनराशि शुल्क स्वीकृत निविदा लागत सख्या (लाख में) मात्रा (天0) (灰0) पर 10 प्रति0 (नगमें/ एफ0डी0आर0 मी0) द्वारा जमा करनी होगी।(रू0) खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय की रंगाई पुताई राज्य वित्त आयोग 3.00 1 नग 500 30000 6000 टिकरा में बब्लू के मकान से लेखराम के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली राज्य वित्त आयोग 6.00 2. 80 मी0 60000 12000 500 3. भावलखेड़ा में कन्या पाठशाला वाली रोड के अवशेष भाग पर राज्य वित्त आयोग 6.00 80 मी0 12000 500 60000 इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण मऊ वासक में मन्दिर तक इण्टरलाकिंग 4. राज्य वित्त आयोग 2.00 40 मी0 4000 500 20000 पैतापुर में प्रदीप के मकान से इन्द्रजीत के खेत तक इण्टरलािकंग 5. राज्य वित्त आयोग 6.00 100 मी 12000 500 60000 उदियापुर में अवशेष भाग में इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण राज्य वित्त आयोग 4.00 6. 30 मी0 40000 500 8000 7. सुरतपुर में बी0डी0सी0 के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग राज्य वित्त आयोग 3.00 50 मी0 6000 500 30000 8. देवरास में शिव कुमार के मकान से विनोद के मकान तक इण्टरलाकिंग राज्य वित्त आयोग 6.00 70 मी0 12000 500 60000 व नाली निर्माण हथौड़ा में कमलेश के मकान से मनोज के मकान तक इण्टरलाकिंग व राज्य वित्त आयोग 1.20 9. 20 मी0 2400 500 12000 नाली निर्माण हथौड़ा में रामप्रसाद के मकान से बंसीलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग राज्य वित्त आयोग 1.30 40 मी0 2600 500 13000 महोलिया मुण्डी में देवी स्थान से लालाराम के घर तक इण्टरलाकिंग व राज्य वित्त आयोग 3.00 45 मी0 11. 6000 500 30000 हेतमपुर में रोड से अम्बेडकर पार्क तक इण्टरलाकिंग राज्य वित्त आयोग 4.00 12. 50 मी० 500 8000 40000

19. नौसिया में अम्बेडकर पार्क की वाउन्डीवाल का निर्माण राज्य वित्त आयोग 10.0 100000 1 नग 20000 500 निविदा पत्र विकास खण्ड भावलखेड़ा दिनॉक से 20.08.2022 से दिनॉक 04.09.2022 तक निविदा शुल्क नगद जमा कर निविदाऐं प्राप्त की ज सकती है। निविदा दिनॉक 04.09.2022 को अपरान्ह 04 बजे तक जमा की जा सकती है। निविदा दिनॉक05.09.2022 को पूर्वान्ह 12:00 बजे तकनीकी एवं वित्तीय निविदाऐं खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी । उक्त तिथि पर यदि कार्यालय बन्द होता है तो अगले कार्य दिवस पर खोली जायेगी। निविदाओ की वैधता मूल तिथि से मानी जायेगी । निविदा से संबंधित नियम व शर्ते किसी भी कार्य

राज्य वित्त आयोग 4.00

राज्य वित्त आयोग 3.00

राज्य वित्त आयोग 3.00

राज्य वित्त आयोग 4.00

राज्य वित्त आयोग 10.0

1 नग

1 नग

40 मी0

50 मी0

1 नग

8000

6000

6000

8000

20000 500

500

500

500

500

40000

30000

30000

40000

100000

अधिकारी के पक्ष में एफ0डी0आर0 बन्धक / प्रत्येक कार्यो के बिलो से कटौती कर ली जायेगी।

बारापुर के उत्सव भवन में लाइट फिटिंग व पेयजल व्यवस्था

रौरा में अम्बेडकर पार्क की वाउन्ड्रीवाल का निर्माण

हथौड़ा में के0पी0 सिंह के मकान के पास अवशेष इण्टरलाकिंग

हथौड़ा में भगवानदीन वाली गली का अवशेष इण्टरलाकिंग कार्य

2. सशर्त निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

3. निविदा प्रपत्र के साथ पंजीकृत फर्म का पैन नं0, जी0एस0टी0नं0, लेबर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति, चरित्र प्रमाण पत्र आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण-पत्र, ई०पी०एफ० कटौती सम्बन्धी रसीद,अपलोड करना अनिवार्य है।

4. निविदा डालने हेतु फर्म किसी भी सरकारी संस्थान में पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

5. निविदा डालने हेतु फर्म को बिल्डिंग निर्माण का 05 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

6. निविदा डालने हेतु फर्म को अपने 05 वर्ष का आयकर रिर्टन सम्बन्धी प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended

खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ के मामले में मुख्य आरोपी बरी

नैनीताल, 19 अगस्त (भाषा)।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में दो मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने खुर्शीद की संपत्ति की देखभाल करने वाले व्यक्ति सुंदर राम की ओर से न्यायालय में पेश एक अनुबंध पत्र के आधार पर गुरुवार को कुंदन चिलवाल और राकेश कपिल को आरोपों से बरी कर दिया। यही व्यक्ति मामले में शिकायतकर्ता भी था। खुर्शीद की संपत्ति मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव पुडा में स्थित है।

कांग्रेस नेता के घर में तोडफोड और आगजनी की घटना 15 नवंबर, 2021 को हुई थी, जिसमें संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। राम की शिकायत पर पुलिस ने भाजपा से संबद्ध चिलवाल और कपिल तथा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इससे पहले अदालत ने चिलवाल और कपिल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। गुरुवार को राम की तरफ से अदालत में एक अनुबंध पत्र पेश किया गया, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने मामले का निपटारा कर दिया। अनुबंध पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक कारणों से अंजाम दी गई इस घटना में ये लोग शामिल नहीं थे। खुर्शीद की किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या' को लेकर उपजे विवाद के बीच उनके घर पर हमला हुआ था। किताब में कांग्रेस नेता ने हिंदुत्व और आतंकी संगठन आइएसआइएस के बीच तुलना की थी।

आय से अधिक संपत्ति मामले में आरटीओ अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी

जबलपुर, 19 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जबलपुर के एक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और उसकी पत्नी के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 15 घंटों से अधिक समय तक छापेमारी की। इस छापे में 16 लाख रुपए से अधिक नकद और करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है।

शाखा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) देवेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि आर्थिक अपराध शाखा के 30 कर्मियों ने आरटीओ संतोष पाल और उनकी पत्नी लेखा पाल के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि छपेमारी के दौरान अधिकारियों ने 16 लाख रुपए नकद, 500 से 600 ग्राम सोने के आभूषण और कुछ आपत्तिजनक

दस्तावेज बरामद किए हैं। अधिकारी ने कहा कि हम दस्तावेजों और जब्त किए गए सामान की जांच कर रहे हैं, ताकि इस बात का आकलन किया जा सके कि दंपति ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से कितनी अधिक संपत्ति अर्जित की है।

दक्षिण रेलवे

ई-निविदा सुचना सं. V/TRD-OT/ 06/2022-23 तिथि 17.8.2022 कार्य का नामः टीवीसी मंडल-टेन सेट प्रचालन के लिये केसीवीएल में पिट लाइन्स 1 एवं 2 का

निविदा मूल्यः रु. 1,56,89,142.31 पूर्णता अवधि: 180 दिन धरोहर राशि भगतानः रु. 228500/-

निविदा बंद होने की तिथि एवं समय: 13.09.2022 - 14.00 बजे

सम्पूर्ण विवरण तथा निविदा दस्तावेज https://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। वरिष्ठ मंडल विद्यत अभियंता

(टीआरडी)/थिरुवनंतपुरम Follow us on : W twitter.com/GMSRailway

प्रपत्र सं. आईएनसी-26 (कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30 के अनुपालन में) एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को बदलने के लिए

केंद्रीय शासन, उत्तरी क्षेत्र, (क्षेत्रीय निदेशक), बी-2 विंग, द्वितीय तल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नर्ड दिल्ली-110003 के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13

समाचार-पत्र में प्रकाशित होनेवाला विज्ञापन

की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमीकरण) नियमावली 2014 के नियम 30 के

उप-नियम (5) के उपवाक्य (ए), के विषय में

बलेंटो इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकत कार्यालय 16/1. एसएफ पश्चिमी पटेल नगर, दिल्ली-110008 में स्थित है, के विषय में

तदद्वारा सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि कंपनी, कंपन अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय शासन के समक्ष एक आवेदन करने का प्रस्ताव रखती है, जिसमें 11 जुलाई 2022 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक अर्थात ईजीए में पारित विशेष संकल्प के निबंधनों के अनुसार कंपनी के संस्था

ज्ञापन के परिवर्तन के पुष्टिकरण की इच्छा प्रकट की गई है, तावि

कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली राज्य" से "पश्चि

बंगाल राज्य" में परिवर्तित करने में समर्थ हो सके। कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकत कार्यालय प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा संभवतः प्रभावित हो सकता है वह इर सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिवसों की समयावीं में अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधारों का उल्लेखन कर वाले एक शपथपत्र द्वारा अनसमर्थित अपनी आपत्ति / यों को या र एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकार प्रपत्र भरकर, प्रस्तुत कर सकता है अथवा क्षेत्रीय निदेशक को उनव कार्यालयी पते- क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्विती तल. पर्यावरण भवन. सीजीओ कॉम्प्लेक्स. नई दिल्ली-110003 प स्वयं जाकर दे सकता है अथवा इस पते पर पंजीकृत डाक द्वार प्रेषित कर सकता है। साथ ही इस सूचना की एक प्रति, याचिकाकत

कंपनी को इसके निम्नवर्णित पते पर स्थित इसके पंजीकृत कार्यालर को भी प्रेषित करनी होगी: बलेंटो इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड 16/1, एसएफ पश्चिमी पटेल नगर, दिल्ली-110008

www.readwhere.com

बलेंटो इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के लिए एवं उसकी ओर से नवीन कुमार अग्रवा

डीआईएनः 006108

स्थानः लखनऊ

Advertisement under Regulation 18(12) in terms of Securities and Exchange Board of India (Substantial

SICAGEN INDIA LIMITED

Corporate Identification Number: L74900TN2004PLC053467 Registered Office: No.88, SPIC House, 4th Floor, Mount Road, Guindy, Chennai-600032, Tamil Nadu. Tel: +91 44 40754075 | Email: companysecretary@sicagen.com | Website: www.sicagen.com

This Post Offer Advertisement ("Post Offer Advertisement") is being issued by Saffron Capital Advisors Private Limited ("Manager to the Offer"), on behalf of, Ami Holdings Private Limited ("Acquirer"), in connection with the offer made by the Acquirer, in compliance with Regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI Regulations"). This Post Offer Advertisement is to be read in continuation of and in conjunction with: (a) the Public Announcement dated April 29, 2022 ("PA"); (b) the Detailed Public Statement published on May 06, 2022 in Financial Express (English National Daily), Jansatta (Hindi National Daily), Pratahakal (Marathi Daily) and Makkal Kural (Registered Office of the Target Company) ("DPS"); (c) Corrigendum to DPS and Draft Letter of Offer was published on June 14, 2022 ("Corrigendum"); (d) Offer Opening Public Announcement cum Corrigendum was published on July 13, 2022 ("Pre Offer Advertisement cum Corrigendum") in the same newspapers in which the DPS was published;

: Ami Holdings Private Limited

: Saffron Capital Advisors Private Limited

Nil%

27,23,092

Pre:2.42.24.101; 61.22%

Post: 2.15.01.009; 54.34%

(e) the Letter of Offer dated June 30, 2022 ("LOF"): 1) Name of the Target Company : Sicagen India Limited

Name of the Registrar to the Offer : Cameo Corporate Services Limited Offer Details a) Date of Opening of the Offer : Thursday, July 14, 2022 b) Date of Closure of the Offer : Wednesday, July 27, 2022 Date of Payment of Consideration : On or before August 11, 2022

Name of the Acquirer

Name of the Manager to the Offer

% of the shares acquired

Post offer shareholding of Acquirer

7.10 Pre & Post offer shareholding of the Public

· % of Fully Diluted Equity Share Capital

. % of Fully Diluted Equity Share Capital

Details of Acquisition: **Particulars** Proposed in the Offer Actuals No Document 7.1 Offer Price ₹ 32/- per share ₹ 32/- per share 7.2 Aggregate number of Shares tendered 40,00,000 27,23,232 7.3 Aggregate number of Shares accepted 40,00,000 27,23,092 Size of the Offer (Number of shares multiplied by ₹12,80,00,000/-₹8.71.38.944 Shareholding of the Acquirerbefore Agreements/ Public Announcement along with their immediate Nil% Shares proposed to be acquired by way of Nil% Nil% % of Fully Diluted Equity Share Capital Shares Acquired by way of Open Offer 40,00,000 27,23,092 . % of Fully Diluted Equity Share Capital 10.11% 6.88% Shares acquired after Detailed Public Statement Number of shares acquired · Price of the shares acquired Nil

* The promoter and the promoter group is acting as a deemed PAC along with the Acquirer. Note: After completion of the Open Offer, the Acquirer alongwith Deemed PAC will hold 45.66% of the Total Paid up capital of the Target Company. However, the deemed PAC shall not participate in the Open Offer.

40,00,000

10.11%

Pre:2,42,24,101; 61.22%

Post: 2,02,24,101; 51.11%

8) The Acquirer accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011. 9) A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Limited and the registered office of

The capitalized terms used but not defined in this advertisement shall have the same meanings assigned to such terms in the

Public Announcement and/or Detailed Public Statement and/or Letter of offer Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer:

SAFFRON CAPITAL ADVISORS PRIVATE LIMITED

Validity: Permanent

Corporate Identification Number: U67120MH2007PTC166711 • • • • energising ideas

605, Sixth Floor, Centre Point, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 059; Maharashtra, India Tel. No.: +91 22 49730394 | Fax No.: NA Email id: openoffers@saffronadvisor.com | Website: www.saffronadvisor.com

Investor Grievance: investorgrievance@saffronadvisor.com SEBI Registration Number: INM000011211

Contact Person: Gaurav Khandelwal/ Elton D'souza

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER **ACQUIRER**

Registered Office Address: No.88, SPIC House, Mount Road, Guindy, Chennai, Tamil Nadu, 600032. Contact Person: E.N Rangaswami (Director)

Place: Chennai Date: August 19, 2022

इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 35-ए सिविल लाइन्स बरेली उत्तर प्रदेश-243001 कॉर्पोरेट कार्यालय:- वॉटर वर्क्स रोड स्वरूप कोल्ड स्टोरेज कंपाउंड, ऐशबाग लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226004 फोन नं0: 91 522 2653602, ई मेल: Investor@indiapesticideslimited.com वेबसाइटः www.indiapesticideslimited.com

सीआईएन L24112UP1984PLC006894

सैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की सूचना

यह सचित करना है कि वीडियो कान्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अन्य आडियो विज्ञाल मीन्स ("ओएवीम") के माध्यम से कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी एंव लागू परिपत्रों के अनुपालन में आयोजित होने वाली कम्पनी की सैतीसवीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 को भारतीय समयोनुसार (भा.स.) दौपहर 12:30 बजे बुलाने की एजीएम सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों को लेन—देन करने के लिए और वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए कम्पनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की प्रति एजीएम के नोटिस के साथ व अन्य रस्तावेजों के साथ 29 जुलाई, 2022 को इलेक्ट्रानिक मोड से कम्पनी सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी / रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों के साथ पंजीकृत हैं को भेजे गए हैं। एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.indiapesticideslimited.com पर और स्टाक एक्सचेंजो की वेबसाइट यानी बाम्बे स्टाक एक्सचेंज लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और NSDL की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

एजीएम की सूचना में संदर्भित दस्तावेज एजीएम की सूचना के सर्कुलेशन की तारीख से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध है। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छक सदस्य Investor@indiapesticideslimited.com पर ई—मेल प्रार्थना भेज सकते है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग:

कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों ("ई-वोटिंग") द्वारा, एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावों पर, मतदान के अधिकार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्य नीचे उल्लिखित तिथियाँ ("दूरस्थ ई–मतदान") पर दूरस्थ रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कम्पनी ने ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') को एजेंसी के रूप में नियक्त किया है।

डीमैटेरियल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान करने सहित मतदान के तरीके सहित सूचना और निर्देश और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है। जो व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजने और कट–ऑफ तिथि यानी 16.08.2022 तक शेयर रखने के बाद कम्पनी के सदस्य बन जाते हैं, वे भी अपना वोट डालने के पात्र हैं। सदस्य जो अपना युजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं 🖊 उत्पन्न कर सकते हैं जैसा कि एजीएम की सूचना में प्रदान किया गया है।

रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित वोटिंग अवधि के दौरान उपलब्ध होगी रिमोट ई—वोटिंग की शुरुआत : शनिवार, 20 अगस्त 2022 सुबह 9:00 बजे (भा.स.)

रिमोट ई—वोटिंग की समाप्ति : सोमवार 22 अगस्त 2022 को शाम 5:00 बजे तक । (मा.स.)

उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिमोट ई-वोटिंग माडवूल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ('NSDL') द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर अक्षम कर दिया जाएगा

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में इलेक्ट्रानिक मतदान कर सकेंगे। वह व्यक्ति, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि, यानी मंगलवार अगस्त 16, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, वही रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा का

लाभ उठाने का हकदार होगा। लाभांश और उसके भुगतान की रिकार्ड तिथि : क. कम्पनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित लागांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित

करने के लिए शुक्रवार, 12 अगस्त 2022 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है। ख. लाभांश का भुगतान एजीएम के समापन के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, उन सदस्यों के लिए जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि पर कम्पनी के सदस्यों

के रजिस्टर पर और उन सदस्यों के लिए जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड तिथि पर लाभकारी मालिकों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, डीमैटिरियलाइज्ड मोड में रखे गए शेयरों के संबंध में दिखाई देते ग. लाभांश का भूगतान इलेक्ट्रानिक माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिन्होनें कम्पनी में अपने बँक खाते का विवरण पंजीकृत किया है। लाभांश

वारंट उन सदस्यों के पंजीकृत पते पर भेजे जायेंगें जिन्होनें अपने बैंक खाता का विवरण अभिलिखित नहीं किया है। लाभांश प्राप्त करने के लिए मैनडेट (Mandate) दर्ज करने का तरीकाः

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत / अपडेट करें:

यदि शेयर डीमैटिरियलाइज्ड मोड में रखा गया है, तो अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्टस के साथ, फार्म और दस्तावेज, जमा करके पंजीकृत / अपडेट ई—मेल पता पंजीकृत / अपडेट करने के तरीकाः

डीमैटिरियलाइञ्ड मोड में शेयर रखने वाले कार्पोरेट सदस्य, जिन्होनें अपना ई—मेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध किया जाता है

कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स जहाँ वे अपने डीमैट खाते रखते है, में पंजीकृत / अपडेट करें। ई—वोटिंग से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न हो तो सदस्य ई—वोटिंग करने के लिए NSDL वेबसाइट : https://evoting.nsdl.com के खाउनलोख सेक्शन में ड्रापडाउन मैन्यू के माध्यम से "एफएक्यूस" सेक्शन / ई-वोटिंग यूजर मैन्अल देख सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि यदि कोई प्रश्न / शिकायत हो तो उनके समाधान के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें: श्री अजीत पाण्डेय, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी, इंडिया पेस्टीसाइड्स लिमिटेड, वॉटर वर्क्स रोड, स्वरूप कोल्ड स्टोरेज कंपाउंड, ऐशबाग

लखनऊ—226004. दूरभाष: 91—522—2653602 / 03, ईमेल:investor@indiapesticideslimited.com वेबसाइटः www.indiapesticideslimited.com वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होनाः सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से NSDL वेबलिंक: https://:www.evoting.nsdl.com पर एजीएम में भाग ले सकेंगे। उपयोग किए जाने वाले

लाग-इन क्रेडेंशियल के बारे में जानकारी और एजीएम में भाग लेने के लिए अपनाए जाने वाले चरणों को एजीएम की नोटिस में समझाया गया है रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी शामिल हो सकते हैं लेकिन वे एजीएम में अपना वोट दोबारा डालने के पात्र नहीं होंगे। **लाभांश पर कर:** आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के संदर्भ में, लाभांश निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती के अधीन होगा।

> अजीत पाण्डेय, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 18.08.2022

13.

14.

15.

16.

17.

18.

सदस्यता संख्याः A42500

निदेशक मंडल के आदेश से न्यायलय शाहजहॉपुर में ही मान्य होगा ।

निविदा स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी भावलखेड़ा में निहित होगा । निविदा से संबंधित कोई भी विवाद मा0

अमी जिनेन शाह

पूर्ण कालिक निदेश

डीआईएन : 0679204

दिनांक:-18.08.2022 अल्पकालीन निविदा सूचना

अनुमानित | कार्य की| धरोहर | निविदा|

ग्राम बेहटी में विनोद के मकान से रामेश्वर के मकान तक इण्टरलाकिंग 35 मी0 राज्य वित्त आयोग 3.00 500 30000 6000 जलालपुर में शिव मन्दिर तक सी०सी०

दिवस पर विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 1. प्रत्येक कार्य की कुल धनराशि पर 02 प्रति0 अर्नेस्ट मनी जमा करनी होगी। टेडर स्वीकृत होने पर 08 प्रति0 जमानत धनराशि खण्ड विकास

(ऋषिकान्त अहिरवार) खण्ड विकास अधिकारी, भावलखेडा-शाहजहाँपुर